



SBI CLERK 2023



REASONING

MOST EXPECTED

PAPER - 7

EXAM से पहले इसे जरूर देखें।

LIVE 09:00 AM 



Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls





An uncertain number of persons are sitting in a straight line facing north. Three persons sit between P and Q. R sits second to the right of P. Only three people sit between Q and S. T is immediate to the left of P. R sits fifth from the right extreme ends of the row. X sits on the extreme end of the row. As many people sit between R and U as many between U and S. Y sits second to the left of V, who is an immediate neighbor of Q. Not more than two persons sit between V and S. Five people sit between S and X. As many people sit between S and W as many between W and X.

अनिश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। P और Q के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, P के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। Q और S के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। X पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। जितने लोग R और U के बीच बैठते हैं उतने ही लोग U और S के बीच बैठते हैं। Y, V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, जो Q का निकटतम पड़ोसी है। V और S के बीच दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठते हैं। S और X के बीच पांच लोग बैठते हैं। जितने लोग S और W के बीच बैठते हैं उतने ही लोग W और X के बीच बैठते हैं।



An uncertain number of persons are sitting in a straight line facing north. Three persons sit between P and Q. R sits second to the right of P. Only three people sit between Q and S. T is immediate to the left of P. R sits fifth from the right extreme ends of the row. X sits on the extreme end of the row. As many people sit between R and U as many between U and S. Y sits second to the left of V, who is an immediate neighbor of Q. Not more than two persons sit between V and S. Five people sit between S and X. As many people sit between S and W as many between W and X.

How many seats in a row?

1. 17
2. 18
3. 15
4. 19
5. 21



An uncertain number of persons are sitting in a straight line facing north. Three persons sit between P and Q. R sits second to the right of P. Only three people sit between Q and S. T is immediate to the left of P. R sits fifth from the right extreme ends of the row. X sits on the extreme end of the row. As many people sit between R and U as many between U and S. Y sits second to the left of V, who is an immediate neighbor of Q. Not more than two persons sit between V and S. Five people sit between S and X. As many people sit between S and W as many between W and X.

Who among the following person sits sixth to the right of Q?

- 1. P**
- 2. T**
- 3. W**
- 4. U**
- 5. R**



An uncertain number of persons are sitting in a straight line facing north. Three persons sit between P and Q. R sits second to the right of P. Only three people sit between Q and S. T is immediate to the left of P. R sits fifth from the right extreme ends of the row. X sits on the extreme end of the row. As many people sit between R and U as many between U and S. Y sits second to the left of V, who is an immediate neighbor of Q. Not more than two persons sit between V and S. Five people sit between S and X. As many people sit between S and W as many between W and X.

How many people are sitting between S and T?

- 1. Four**
- 2. Three**
- 3. Ten**
- 4. Six**
- 5. Seven**



Statements :

Some cricket are football

Only a few football are ball

No ball is bat

Conclusions :

I. Some football is not ball

II. All bat can be cricket

1. Only I follow

2. Only II follow

3. Either I or II follows

4. Neither I nor II follows

5. Both I and II follows



Statements :

Only a few grapes are cherry

Some cherry are banana

No banana is apple

Conclusions :

I. All grapes are apple

II. Some grapes are not apple

1. Only I follow

2. Only II follow

3. Either I or II follows

4. Neither I nor II follows

5. Both I and II follows



Statements :

All tea is coffee

All coffee is butter

Only a few butter is milk

Conclusions :

I. Some milk is coffee

II. Some tea is milk

1. Only I follow

2. Only II follow

3. Either I or II follows

4. Neither I nor II follows

5. Both I and II follows



Statements :

Some buildings are sofas.

Some sofas are benches.

Some benches are tables.

Conclusions :

I. Some tables are sofas.

II. No table is sofa.

- 1. Only I follow**
- 2. Only II follow**
- 3. Either I or II follows**
- 4. Neither I nor II follows**
- 5. Both I and II follows**



There are seven boxes – Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is numbered 1 and the box above it numbered 2 and so on till the top box which is numbered 7. Two boxes are placed between V and Z, which is kept at an odd number position above V. Two boxes are kept between A and W. Three boxes are kept between Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V.

सात डिब्बे हैं - Z, A, V, B, U, C और W जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। सबसे नीचे वाले डिब्बे का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाले डिब्बे का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले डिब्बे का क्रमांक 7 है। V और Z के बीच दो डिब्बे रखे गए हैं, जिसे V के ऊपर एक विषम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है। इनके बीच दो डिब्बे रखे गए हैं A और W. Z और W के बीच तीन डिब्बे रखे गए हैं। B को U के ठीक ऊपर रखा गया है, जिसे V के ऊपर नहीं रखा गया है।



There are seven boxes – Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is numbered 1 and the box above it numbered 2 and so on till the top box which is numbered 7. Two boxes are placed between V and Z, which is kept at an odd number position above V. Two boxes are kept between A and W. Three boxes are kept between Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V.

Which box is kept immediately above B?

1. W
2. A
3. Z
4. C
5. U



There are seven boxes – Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is numbered 1 and the box above it numbered 2 and so on till the top box which is numbered 7. Two boxes are placed between V and Z, which is kept at an odd number position above V. Two boxes are kept between A and W. Three boxes are kept between Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V.

Which box is placed at 4th position?

1. W
2. B
3. Z
4. A
5. V



There are seven boxes – Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is numbered 1 and the box above it numbered 2 and so on till the top box which is numbered 7. Two boxes are placed between V and Z, which is kept at an odd number position above V. Two boxes are kept between A and W. Three boxes are kept between Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V.

How many boxes are placed between U and A?

- 1. One**
- 2. Three**
- 3. Four**
- 4. Two**
- 5. More than four**



There are seven boxes – Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is numbered 1 and the box above it numbered 2 and so on till the top box which is numbered 7. Two boxes are placed between V and Z, which is kept at an odd number position above V. Two boxes are kept between A and W. Three boxes are kept between Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V.

Which box is kept at the top?

- 1. A**
- 2. V**
- 3. Z**
- 4. W**
- 5. B**



There are seven boxes – Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is numbered 1 and the box above it numbered 2 and so on till the top box which is numbered 7. Two boxes are placed between V and Z, which is kept at an odd number position above V. Two boxes are kept between A and W. Three boxes are kept between Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V.

If all the boxes are arranged in alphabetical order from bottom to top, how many boxes will remain in the same position?

- 1. One**
- 2. Three**
- 3. Two**
- 4. More than three**
- 5. None**



Statements:

$H \leq G \leq J \geq L > A > Q = Y < R$

Conclusions:

- I. $J > Q$
- II. $Q < R$

1. Only conclusion I follows
2. Only conclusion II follows
3. Both conclusion are follows
4. None of the conclusion are follows
5. Either conclusion I or II follows



Statements:

$$F < H \leq L; L < J \leq S < A$$

Conclusions:

I. $S > F$

II. $A < H$

1. Only Conclusion I is True.
2. Only Conclusions II is True.
3. Either Conclusion I or II is True.
4. Both Conclusions I and II are True
5. Neither Conclusion I nor II is True.



Statements:

$$R < O \leq L \leq E; G = E \geq S \geq P$$

Conclusions:

I. $R < S$

II. $O \leq G$

1. Only Conclusion I is True.
2. Only Conclusions II is True.
3. Either Conclusion I or II is True.
4. Both Conclusions I and II are True
5. Neither Conclusion I nor II is True.



Statements:

$$P > Q = R \geq S; T \geq U \leq V = S$$

Conclusions:

I. $V = R$

II. $V < R$

1. Only Conclusion I is True.
2. Only Conclusions II is True.
3. Either Conclusion I or II is True.
4. Both Conclusions I and II are True
5. Neither Conclusion I nor II is True.



How many meaningful English words can be formed with the third, fourth, seventh and eighth letters of the word "CONSISTENCY", using each letter only once in each word? (To be counted from left)

शब्द "CONSISTENCY" के तीसरे, चौथे, सातवें और आठवें अक्षरों से, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके, कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? (बाएं से गिना जाएगा)

1. One
2. Two
3. Three
4. Four
5. More than four



6 U # 7 Y 8 X @ Q 9 L S % \$ V M 3 F 2 K 1 5 Z & 4 C * O ? D

In the given arrangement, how many such letters are there which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number?

दी गई व्यवस्था में, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है?

- 1. Zero**
- 2. One**
- 3. Three**
- 4. Four**
- 5. Five Letter**



6 U # 7 Y 8 X @ Q 9 L S % \$ V M 3 F 2 K 1 5 Z & 4 C * O ? D

What is the product of numbers, which are between 'X' and 'Z'?

उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, जो 'X' और 'Z' के बीच हैं?

- 1. 270**
- 2. 280**
- 3. 310**
- 4. 250**
- 5. 125**



6 U # 7 Y 8 X @ Q 9 L S % \$ V M 3 F 2 K 1 5 Z & 4 C * O ? D

If all the odd numbers are dropped from the arrangement then which of the following will be 5th element to the right of the 7th element from the left end of the given arrangement?

यदि सभी विषम संख्याओं को व्यवस्था से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था के बाएं छोर से 7वें तत्व के दाईं ओर 5वां तत्व होगा?

1. D
2. *
3. \$
4. F
5. Z



6 U # 7 Y 8 X @ Q 9 L S % \$ V M 3 F 2 K 1 5 Z & 4 C * O ? D

How many such numbers are there which are immediately preceded by a symbol in the given arrangement?

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनके ठीक पहले दी गई व्यवस्था में एक प्रतीक है?

- 1. Two**
- 2. One**
- 3. Three**
- 4. Five**
- 5. Four**



Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row-1 J, K, L, M, and N are seated (no necessarily in the same order) and all of them are facing South. In row-2 V, W, X, Y, and Z are seated (not necessarily in the same order) and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member to the other row. Z sits third to the right of W. V sits second to the left of Z. The person facing V sits to the immediate right of K. Only one person sits between K and M. J is not an immediate neighbor of K. Only two people sit between J and L. Neither K nor J faces Y.

दस व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें से प्रत्येक में पांच व्यक्ति हैं, इस प्रकार कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति-1 में J, K, L, M और N बैठे हैं (जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों) और वे सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति-2 में V, W, X, Y और Z बैठे हैं (जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों) और वे सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसलिए, दी गई बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति के दूसरे सदस्य की ओर है। Z, W के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। लोग J और L के बीच में बैठे हैं। न तो K और न ही J का मुख Y की ओर है।



Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row-1 J, K, L, M, and N are seated (no necessarily in the same order) and all of them are facing South. In row-2 V, W, X, Y, and Z are seated (not necessarily in the same order) and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member to the other row. Z sits third to the right of W. V sits second to the left of Z. The person facing V sits to the immediate right of K. Only one person sits between K and M. J is not an immediate neighbor of K. Only two people sit between J and L. Neither K nor J faces Y.

Who amongst the following is facing N?

1. Y
2. Z
3. X
4. W
5. V



Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row-1 J, K, L, M, and N are seated (no necessarily in the same order) and all of them are facing South. In row-2 V, W, X, Y, and Z are seated (not necessarily in the same order) and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member to the other row. Z sits third to the right of W. V sits second to the left of Z. The person facing V sits to the immediate right of K. Only one person sits between K and M. J is not an immediate neighbor of K. Only two people sit between J and L. Neither K nor J faces Y.

Which of the following statements is true regarding M?

- 1. M faces one of the immediate neighbors of X**
- 2. K is one of the immediate neighbors of M**
- 3. None of the given statement is true**
- 4. L sits to the immediate right of M**
- 5. All of the given statements are true**



Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row-1 J, K, L, M, and N are seated (no necessarily in the same order) and all of them are facing South. In row-2 V, W, X, Y, and Z are seated (not necessarily in the same order) and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member to the other row. Z sits third to the right of W. V sits second to the left of Z. The person facing V sits to the immediate right of K. Only one person sits between K and M. J is not an immediate neighbor of K. Only two people sit between J and L. Neither K nor J faces Y.

Who amongst the following is facing X?

- 1. K**
- 2. L**
- 3. M**
- 4. J**
- 5. None of these**



Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row-1 J, K, L, M, and N are seated (no necessarily in the same order) and all of them are facing South. In row-2 V, W, X, Y, and Z are seated (not necessarily in the same order) and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member to the other row. Z sits third to the right of W. V sits second to the left of Z. The person facing V sits to the immediate right of K. Only one person sits between K and M. J is not an immediate neighbor of K. Only two people sit between J and L. Neither K nor J faces Y.

What is the position of Z with respect to Y?

- 1. Third to the right**
- 2. Second to the right**
- 3. Immediate left**
- 4. Immediate right**
- 5. None of these**



Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row-1 J, K, L, M, and N are seated (no necessarily in the same order) and all of them are facing South. In row-2 V, W, X, Y, and Z are seated (not necessarily in the same order) and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member to the other row. Z sits third to the right of W. V sits second to the left of Z. The person facing V sits to the immediate right of K. Only one person sits between K and M. J is not an immediate neighbor of K. Only two people sit between J and L. Neither K nor J faces Y.

Four of the following five are alike in a certain way and so form a group, find the one which does not belong to the group.

1. M
2. J
3. N
4. W
5. Y

Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls





Thank
you!